

PMYV

PMYV

PMYV

PMYV

PMYV

सहेजना- बचत या SAVING!

कोई भी **GIFT** (उपहार), या **PRIZE** (पुरस्कार) जो हमें अपने अच्छे व्यवहार या **PERFORMANCE** (कार्य) पर मिला होता है जैसे **SCHOOL** में कोई **TROPHY** या कोई **AWARD** या **CERTIFICATE** (प्रमाण-पत्र) उसे हम संजो कर रखते हैं उसी प्रकार हमें कई बार उपहार स्वरूप कुछ पैसे प्राप्त होते हैं जो हम अपने गुल्लक (**PIGGYBANK**) या माता पिता को दे देते हैं, मुख्य कर हमारे माता पिता हमारे लिये खर्च या जरूरत कि चीजे लाते हैं, पर हम चाहे तो अपने माता पिता कि अनुमती से जो धन राशि हमने **SAVE** (सहेजी) की है उससे अपने **BIRTHDAY** पर या घर के किसी बड़े भाई-बहन के जन्मदिन पर उपहार ला सकते हैं।

क्यों जरूरी है पैसो की SAVING?

पैसो का महत्व बच्चो को छोटी उम्र से समझाना अनिवार्य है, अपने जीवन में आगे चलकर हर छोटी बड़ी जरूरतों को सफल रूप में चलाने में पैसा अहम है, साथ ही अगर पाँच साल की उम्र से हम बच्चो को पैसे बचत करना सीखाते हैं तो छोटी छोटी चीजे जो उनकी पढ़ाई में काम आती है। जैसे **ADDITION, SUBTRACTION** साथ ही किसी चीज की कितनी **VALUE** होती है बच्चो को समझने के लिये सरल हो जाता है।

साथ ही बच्चे इस बचत की आदत से अपने लक्ष्य को सरलता से समझ सकते हैं। साथ ही कुछ पाने के लिये उन्हें कितनी बचत या कितना श्रम करना होगा, ये अगर बाल्य अवस्था से बच्चों के मस्तिष्क में बैठाया (**INCULCATE**) किया जाये तो आगे चलकर जीवन में वे एक अच्छे निवेशक (**INVESTOR**) बनने व हर बुरे-अच्छे समय के लिये बचत (**SAVING**) का भाव सिखेंगे। ये सभी बच्चों से निवेदन है कि यह **SAVING** आप माता-पिता के देखरेख (**SUPERVISION**) में ही करे।

भारत सरकार द्वारा ऐसी कई योजना दी गई है जिसे आप अच्छी तरह सोचकर व अपने स्वयं के विवेक पर ले सकते हैं। जैसे बेटियों के लिये सभी बैंको में **सुकन्या योजना** या फिर **POST OFFICE** में **RD - RECURING DEPOSIT** जो हर माह न्युनतम राशि देकर खोली जाती है या **MIS-MONTHLY INVESTMENT SCHEME** ये काफी वर्ष से चल रही है व भरोसे योग्य है।

PMYV